



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 734) पटना, मंगलवार, 6 अगस्त 2024

सं० वि.प्रा०(II)व²-37/2004—2764
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

4 जुलाई 2024

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना एक पूर्ण सरकारी संस्था है, जो विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सीधे नियंत्रण में राज्य स्तरीय संगठन है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् का गठन आदेश संख्या-75/Dir दिनांक-31.05.1955 द्वारा किया गया है एवं इसका संचालन आदेश संख्या-463 दिनांक 07.11.1956 से किया जा रहा है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् का मुख्य कार्य परीक्षा का संचालन, सभी डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का संबंधन एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना एवं डिप्लोमा प्रदान करना है। उपरोक्त कार्यों के संचालन हेतु पूर्व से ही माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्येक तीन वर्षों पर संकल्प के माध्यम से तीन वर्षों के लिए पर्षद् का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नामित करते हुए पर्षद् का अवधि विस्तार किया जाता रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार को पुर्नगठित करते हुए उसका अवधि विस्तार अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए निम्न प्रकार किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. विभागीय मंत्री | — | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | — | उपाध्यक्ष |
| 3. निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | — | सदस्य |
| 4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 5. माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् द्वारा नामित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के दो नियमित प्राचार्य | — | सदस्य |
| 6. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 7. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 8. अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 9. राजकीय पोलिटेकनिक के वरीयतम प्राचार्य | — | सदस्य |
| 10. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 द्वारा नामित मुख्य अभियंता | — | सदस्य |
| 11. सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना | — | सदस्य सचिव |

उद्योग के प्रतिनिधि :-

- | | | |
|--|---|-------|
| 12. बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 13. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि | — | सदस्य |

गैर सरकारी सदस्य :-

- | | | |
|---|---|-------|
| 14. निदेशक, बी.आई.टी., पटना | — | सदस्य |
| 15. निदेशक, एन.आई.टी., पटना अथवा उनके प्रतिनिधि | — | सदस्य |

विभागीय संकल्प संख्या-539 दिनांक 04/05/2005 में उल्लिखित पर्वद् के कृत्य एवं शक्तियाँ यथावत् रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया जाय तथा 100 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव।

No. VI PRA (II) V2-37/2004—2764

The 4th July 2024

The State Board of Technical Education, Bihar, Patna, is a fully government-operated organization under the direct control of the Department of Science, Technology, and Technical Education. The State Board of Technical Education was established under order number -75/ Dir dated 31.5.1955 and is operational vide order no 463 dated 7.11.1956. The primary work of the State Board of Technical Education is to conduct examinations, oversee the affiliation of all diploma-level institutions, curriculum development, assessments, certifications, and determine and award diplomas. For the operation of the aforementioned tasks, the term of the board's chairman and other members, who were previously appointed for three years by resolution with the approval of the Honorable Chief Minister, is being extended every three years through the resolution.

After due consideration, the Government of Bihar has reconstituted the State Board of Technical Education, Bihar, Patna and has extended its term for another three years from the date of notification, with the following nominated members:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Minister, Department of Science, Technology & Technical Education | -Chairman |
| 2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Department of Science, Technology & Technical Education | -Vic Chairman |
| 3. Director, Department of Science, Technology & Technical Education | - Member |
| 4. Representative of AICTE | - Member |
| 5. Two regular Principals of Government Polytechnic Nominated by Honorable Minister Cum Chairman State Board of Technical Education, Bihar, Patna | - Member |
| 6. Engineer in Chief Building Construction Department Bihar, Patna | - Member |
| 7. Engineer in Chief Water Resources Bihar, Patna | - Member |
| 8. Engineer in Chief Road Construction Bihar, Patna | - Member |
| 9. Senior most Principal of Government Polytechnic | - Member |
| 10. Chief Engineer Nominated by Bihar State Power Holding Company Ltd. | - Member |
| 11. Secretary, State Board of Technical Education, Bihar, Patna | -Member Secretary |

Representative of Industries :-

- | | |
|--|----------|
| 12. Representative of Bihar Industries Association | - Member |
| 13. Representative of Bihar Chamber of Commerce and Industry | - Member |

Non-Governmental Member :-

- | | |
|---|----------|
| 14. Director, Birla Institute of Technology, Patna | - Member |
| 15. Director, National Institute of Technology, Patna or his Representative | - Member |

The powers and functions of the State Board of Technical Education, Bihar, Patna will remain the same as outlined in Departmental Order 539, dated 04/05/2005.

Order:-It is expressly directed that this resolution be published in the Bihar Gazette for the information of the general public and a copy of it be sent to all concerned individuals. Additionally, 100 copies should be made available to the department.

By order,
Sd. Illegible,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 734-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>